

श्री अणु सचिव  
(बुनियादी ढांचा सचिव)

आज्ञा से,

कायदाही है प्रेषित।

प्रतिनिधि: प्रबन्ध निदेशक, गांधीवाला मण्डल विकास निगम लि., देहरादून को सूचनाएं एवं आवश्यक

संख्या-3095 (1)/VII-1/2018 तदतिनांक।

श्री अणु सचिव  
(बुनियादी ढांचा सचिव)  
भारत

क्र०	लॉट का नाम	जनपद	क्षेत्रफल	खनन परदे की अवधि तिनांक
1.	श्रीपुर	देहरादून	1.365	26.4.2014 से 25.4.2019
2.	झाडी	देहरादून	1.550	26.4.2014 से 25.4.2019
3.	तुंडी	देहरादून	0.165	17.6.2014 से 16.6.2019
4.	बागवान	देहरादून	5.256	18.12.2013 से 17.12.2018
5.	भरडी	देहरादून	1.181	18.12.2013 से 17.12.2018
6.	वालीखोला-II	देहरादून	1.442	18.12.2013 से 17.12.2018
7.	महेशपुर	देहरादून	2.406	30.12.2013 से 29.12.2018
8.	सोन्दागा	देहरादून	3.624	16.12.2013 से 15.12.2018
9.	टीस 3/4 (पुराहितवाला)	देहरादून	0.28153	28.2.2014 से 27.2.2019
10.	आरकलिया गान्ठ 3/9	देहरादून	3.963	14.12.2013 से 13.12.2018
11.	नयाखोला 20/12	देहरादून	0.450	14.12.2013 से 13.12.2018
12.	धमाली 14/7	देहरादून	4.00	14.12.2013 से 13.12.2018
13.	सुखोवाला 20/13	देहरादून	2.500	14.12.2013 से 13.12.2018
14.	कालीखोला 5/1	देहरादून	3.288	14.12.2013 से 13.12.2018

स्वीकृत किया जाने हेतु आवेदन आग्रह्यक कायदाही करने का कस कर :-  
उपरोक्त विषयक अणु निदेशक, भारत एवं खनिकम् इकाई, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या-341/खनन/भूखनिकम्/गोमोहो/2017-18, तिनांक 28 जून, 2018 के संदेश में सूची यद करने का निदेश हुआ है कि गांधीवाला मण्डल विकास निगम के पक्ष में स्वीकृत निम्न राजस्व उपखनिज क्षेत्रों में आगामी 05 वर्षों के लिए उपखनिज खनन हेतु गांधीवाला मण्डल विकास निगम के पक्ष में आग्रह पत्र (Letter of Intent)

विषय: प्रबन्ध निदेशक, गांधीवाला मण्डल विकास निगम के पक्ष में प्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त राजस्व खनन लॉटों की अवधि विस्तार के संबंध में।  
आध्यात्मिक विकास अणुभाग-1  
देहरादून, तिनांक: 26 दिसम्बर, 2018

उत्तराखण्ड देहरादून।  
भारत एवं खनिकम् इकाई,  
निदेशक,

सेवा से,

उत्तराखण्ड शासन।  
अणु सचिव,  
बुनियादी ढांचा सचिव,

प्रेषक,

26/12/2018